



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 637 राँची, गुरुवार 13 अग्रहायण 1936 (श०)
4 दिसम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

4 दिसम्बर, 2014

संख्या-1/पी0-103/2008 का. - 11447--संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार झा, भा.प्र.से. (नवप्रोन्नत) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय राज्यपाल, झारखण्ड की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रभूषण प्रसाद,

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 637—50 ।